



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Jharkhand

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-JH31194753254465S
Certificate Issued Date	: 14-Aug-2020 12:54 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ jh9008904/ DHANBAD/ JH-DB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-JHJH900890447245722414707S
Purchased by	: Abhishek Ranjan Mishra
Description of Document	: Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
Property Description	: Agreement
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Abhishek Ranjan Mishra
Second Party	: As Applicable
Stamp Duty Paid By	: Abhishek Ranjan Mishra
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 50 (Fifty only)



14 AUG 2020

Date: 14 AUG 2020

Signature: Pradeep Kumar Singh



Pradeep Kumar Singh

NOTARY  
DHANBAD

Please write or type below this line-----

" मकान किराया के स्वरनामा "

मकानमालिक/प्रथमपक्ष:- प्रदीप कुमार सिंह, पिता- बाली प्रसाद सिंह, धर्म-  
हिन्दू, पत्नी- व्यक्ताय, ताकिम- नारायणपुर कुन बिहार मूख्यमै ग्राउण्ड  
तरापटोला, जेयनागर, जिला- धनबाद, राज्य- झारखण्ड ।

ए व म

करीबेदार/द्वितीयपक्ष:- कर्णजीत बिस्वर एण्ड डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोपराईटर  
अबिषेक रंजन मिश्रा, पिता- रंजीत कुमार मिश्रा, पत्नी- RS 0000444819

कनांतर-2



The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at [www.shodustamp.com](http://www.shodustamp.com). Any discrepancy in the details on this Certificate will be rendered invalid if the details on the website renders it invalid.  
The responsibility of checking the legitimacy is on the users of the certificate.  
If it is found that any discrepancy exists between this Certificate and the details on the website, the user should report it to the concerned authority.

Bradeep Kumar Singh

: : 2 : :

पता- मोस्तं-404 नगीना कम्प्लेक्स नियर गालवापू मार्केट सी. डी. रस्त. कॉलोनी  
शास्त्रीनगर फूलवारी, जिला- पटना, बिहार 80023, वर्तमान पता सी/ओ.  
प्रदीप कुमार सिंह, पिता -बाला प्रसाद सिंह, पता- नारायणपुर, कुतुम बिहार  
फूवॉल ग्राउंड तराईदेली कोयलानगर, धनबाद पिन-826005

लेख्य प्रकार:- मकान किराया के स्वरूपनामा ।

किराया:- 3500/- तीन हजार पाँच सौ रुपये प्रति महीना बिजली अलग है ।

समय अवधि:- 06 महीना ।

यह स्वरूपनामा प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष दोनों को आपसी सहमति एवं राजमन्दी  
से तैयार किया जा रहा है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित होगी :-

1- यह कि, प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष दोनों एक दूसरे को जानते एवं पहचानते हैं ।

2- यह कि, प्रथमपक्ष का अपना मकान जो नारायणपुर कुतुम बिहार फूवॉल  
ग्राउंड , कोयलानगर, तराईदेली, जिला- धनबाद, राज्य- झारखंड में अवस्थित  
है उस मकान को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को किराया पर दे रहे हैं ।

3- यह कि, दोनों पक्षों की सहमति से मकान का किराया 3500/- तीन हजार  
पाँच सौ रुपये तय हुआ है ।

4- यह कि, द्वितीयपक्ष मकान का किराया अग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येकमहीना  
से 05 तारीख के बीच में प्रथमपक्ष को किराया चुका कर देगा ।

5- यह कि, द्वितीयपक्ष बिजली का बिल स्वयं अदा करेगा ।



पृष्ठ संख्या-3

: : 3 : :

6- यह कि, द्वितीयपक्ष उक्त मकान को साफ सुथरा रखें किसी प्रकार का तोड़ फोड़ या रद्दोबदल का काम नलीं करें। यदि ऐसा करें तो उक्त भूपाई द्वितीयपक्ष को करना होगा।

7- यह कि, प्रथमपक्ष ने उक्त मकान को 06 महीना के लिए द्वितीयपक्ष को दिया है समय अवधी समाप्त हो जाने के बाद यदि दोनों पक्षों में संबंध अच्छा रहा तो एक नया सरकारनामा बनाकर समय में वित्तार किया जायेगा अन्यथा मकान को खाली करवा दिया जायेगा।

असब इस सरकारनामा को पढ़ दो पढ़वाकर सुन व समझ कर सरल मन धीत में रहकर अपने हौसले ख्यात में रहकर विनानिश्चिती के दबाव में आकर नोचे लिखे गवालों को उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर कर दिया जो को समय पर जान आवे एवं प्रमाण रहे इति त्त् 2020 ईस्वी। तारीख-

गवाह का हस्ताक्षर

Pradeep Kumar Singh  
मकानगो लिख/ प्रथमपक्ष को हस्ताक्षर

1-

2-

3-

Abhishek Rajan Mishra  
द्वितीयपक्ष को हस्ताक्षर



**ATTESTED**  
**NOTARY DHANBAL**  
Authenticated.

Secy (3) (a) of the Notaries  
Act 1952 (Act No 53 of 1952)

14/8/2020  
Kumar



9835815638  
6202360891  
7888-8888

# SAI ASSOCIATES

PLANNER, DESIGNER, VALUATION, DEVELOPER

R. K. Nagar, Nawadih, Near Om Kar City, Binod Bihari Chowak, Dhanbad  
Email : rajeev3003sai@gmail.com, rajeev7sai@gmail.com

## VALUATION REPORT

*Valuation Report of the In Movable Properties (Land with Residential Building)*

*Of Smt Kalpna Kumari W/O Sri Ranjeet Kumar Mishra, Village- Pahi, P.O-Sarisabpahi,  
Thana- Pandaul, Dist- Madhubani (Bihar).*

*Location Of Property - Mouza- Golalpur. PLOT NO- 1595,6462,6463, 6464,6465, Khata  
No- 839, Dist- Madhubani, Bihar, Area- 560 SQ/FT.*

*Value Of Land- 20,00,000 Rs/Lak*

*Value Of Building- 30,50,000 Rs/Lak*

---

Total 50,50,000 /RS Lak

*Rajeev Ranjan Singh*

E.R. RAJEEV RANJAN SINGH  
B. TECH (CIVIL) MAHARASHTRA (MIT)  
AMIE No. AM175891-0  
DMC Regd. No-DMC/ENG/0032/2017



Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

**NOTARY  
DHANBAD**

I, Kalpna Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, by faith hindu, R/o Ram Chowk, P.S. Madhubani, District - Madhubani, Bihar, do here by solemnly affirm as follows:

1. That, I am the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, Abhishek Ranjan Mishra, S/O Sri Ranjeet Kumar Mishra is my only son, I will give the above said land to my said son.
3. That, the market value of my land and building is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
4. That, I declare that in future if necessary then I will register the said land in the name of my said son. In this regard I have got not any objection.

02-06 MAY 2020  
No. 1000  
BC No. 1000

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by Sri *P. Choudhary* Advocate Dhanbad.

The statement made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this

**NOTARY  
DHANBAD**

Verification here at Dhanbad, date 06 MAY 2020

*Kalpna Kumari*  
Deponent

Identified by

The Notary Public, Dhanbad.



Authorized.  
Section 297 (1) (e) of the Cr. P.C. 1973  
(Act No. 71 of 1974) & sub (8) (i) (a)  
of the Notaries Act 1952  
(Act No. 53 of 1952)

*[Signature]*  
Advocate  
06/05/2020

Kaishya Sale 3,350/- 1350/-



17  
2  
41

vide declaration No. 06AA 477896 dated 4/1/08

विमान विमान 21 रु. 3. और अधिनामक  
 नमस्कार 46 के अधीन  
 जा 2007 74 - 200  
 23  
 Ad No. 30231 dt 4/1/08

MO 04.01.08

4-1-08

बचल अधिकारी योगेश से प्राप्त  
 अनामक दस्तावेज में उचित मीजा 13 के खाता नम्बर  
 निम्नलिखित है।  
 मया

Free paid

ATU 3,350 = 00  
 Sal 2 = 50  
 P-fee 0 = 94  
3,353 = 44  
 Mया  
 Lekhi Ram Mahale  
 4/1/08

बचल सरव महतो  
 4-1-08

राम चन्द्र महतो  
 4/1/08



केवाला दस्तावेज :-

केवाला दातागण:- 1-श्री लखीराम महतो, पिता स्व० कान्दन महतो, 2-श्री बुकेश्वर महतो, पिता स्व० करमु महतो, 3-श्री रामचन्द्र महतो, पिता स्व० करमु महतो, जाति-कुमी, पेशा-खेती-आदि, साकिम-सरायटेला, थाना-धनबाद हाल-थाना-सरायटेला, जिला-धनबाद भारतीय।

केवाला गृहिता:- श्री विजय कुमार सामल, पिता स्व० नटवर सामल, जाति-राजपूत, पेशा-व्यवसाय, साकिम-कुसुम विहार, पो-बी. सी. सी. एल. टाउन-शीप, थाना-धनबाद, हाल-थाना-सरायटेला, जिला-धनबाद भारतीय।



3374/07-08

Prize by Samal  
Kulavarma Sarmala

13/07/08  
Prize

Lakhi Ram Mahato  
4/1/08

दिनांक 04/01/08 पोस्ट नं. 30  
 200  
 द्वारा कर्ता का नाम श्री रामजी महतो  
 लेखक/लेखिका का नाम श्री रामजी महतो  
 विधा/प्रति का नाम श्री रामजी महतो  
 नाम श्री रामजी महतो  
 जाति श्री रामजी महतो  
 28-1-08



प्रत्युक्त की श्री रामजी महतो  
श्री रामजी महतो  
श्री रामजी महतो  
 न कि कदा श्री रामजी महतो  
 पिता श्री रामजी महतो  
 एक ही ग्राम, पेशा न सकारा कि जन्म श्री रामजी महतो  
 निष्पादित की है।

110  
 2/1/08  


Lakhi Ram Mahato  
 4/01/08


निबंधन पदाधिकारी  
 धनबाद 4-1-08



Lakhi Ram Malah  
4/1/08

धुन्ने सरन महेले  
4-1-08

नामदे महेले  
4/1/08



-2-

बिक्रय-पत्र : केवाला दस्तावेज ।  
मूल्य-3,35,000/-रुपये । तीन लाख पैंतीस हजार रुपये । मात्र,  
सलाना मालगुजारी-10 पैसा, अंवल कार्यालय-धनबाद  
मालिक जमींदार-झारखण्ड सरकार धनबाद।

तफ्शील:- जिला धनबाद, चौकी सदर राजिष्ट्री औफिस धनबाद थाना-धनबाद, हाल  
थाना-सरायटोला अन्तर्गत "नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा" मौजे में रैयती स्वत्व  
का खरीदा सम्पत्ति, मौजा नं-13 खाता नं-24 । चौबीस । सामिल प्लोट  
नं-328 एवं 329 । तीन सौ अठाईस एवं तीन सौ उनतीस । अंश परिमाण-  
04 कट्ठा 05 छटाक 24 वर्गफीट यानि-7.17 डिसिमिल जमीन सह उस पर बना  
हुआ एजवेस्टर के छावनी युक्त मकान के साथ बिक्री किया, जो यह केवाला दस्ता-  
वेज के साथ नत्थी की गई नक्शा में लाल रंग से दिखाया गया है।

उक्त मकान का प्लिथ एरिया-200 वर्गफीट है, जो आवासीय है, जिसमें पानी आदि  
का संयोग नहीं है, जिसका निर्माण वर्ष-1992 है।






Lakshmi Kam Mahato  
4/1/08

शु. के. स. र. व. म. ह. ले  
4.1.08

श्री. म. च. म. ह. ले  
4/1/08

-3-



जिसका चौहत्ती:-

- उत्तर :- प्लोट नं०-328, 329 एवं 322 का अंश,  
दक्षिण :- प्लोट नं०-328 एवं 329 का अंश,  
पुरब :- प्लोट नं०-329 का अंश,  
पश्चिम:- 17 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।

उक्त सम्पत्ति धनबाद रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ 3-2-1964 साल का 1171 नं० केवाला दस्तावेज द्वारा ईन्द्र नारायण साव एवं अन्य से 1, नं० दाता के पितामही पेलिया महताईन एवं पितामह स्व० करमु महतो के नाम से खरीदा, एवं 2, तथा 3, नं० दातागण के माता पेलिया महताईन एवं पिता स्व० करमु महतो के नाम से खरीदा सम्पत्ति है, हमलोग वारीशान सूत्र से नीज अंश में प्राप्त होकर जमा-बन्दी संख्या-87 में सलाना मालगुजारी आदाय देते हुए उक्त सम्पत्ति बिक्री किया।

चुंकि बिक्रय-पत्र का बिबरण यह है कि हमलोगो को संसारिक खर्च के लिए रुपये की आवश्यकता आ जाने से उक्त जमीन का मूल्य-2, 30, 000/-रुपये एवं उक्त मकान का मूल्य:- 1, 05, 000/-रुपये, कुल मूल्य-3, 35, 000/-रुपये धार्य कर आपको बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया।



Lakshmi Mahato  
4/1/08

बि के एस एन महरा  
4.1.08

राम चंद्र महरा  
4.1.08

-4-

उपरोक्त सम्पत्ति पर हमलोगों का जिस प्रकार का हक-अख्तियार दावी-दावा आदि था आज ता रिख से आपका हुआ आप उक्त मकान को तोड़कर नया मकान आदि तैयार कर नीज वसवास या किराया बन्दोबस्त कर अपना इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्व प्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर बंश परम्परा से पुत्र-पौत्रादि एवं वारीसन के साथ सदा के लिए भोग दखल करते रहे इसमें हमलोग या हमलोगों के वारीसन किसी प्रकार का वजुर या स्तराज नही कर सकता है और करने पर भी वह कानून के मुताबिक नामंजूर होगा।

उपरोक्त सम्पत्ति का सलाना मालगुजारी मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खासोज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे।

उपरोक्त सम्पत्ति हमलोगों का खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नही किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके बंशज को क्षति पहुँचे तो हमलोग या हमलोगों के वारीसन क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे।



झारखण्ड JHARKHAND

309213

Lakhi Ram Mahato  
4/1/08

बुके सरवहले  
4.1.08

राम चन्द्र म उता  
4.1.08

-5-

अतः हमलोग अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा रूपये पाकर एवं समझ-बुझकर यह विक्रय-पत्र सम्पादन कर दिया कि समय पर काम आवे।  
ईति दिनांक-4-1-2008,

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक दूसरे की हूबहू और सच्ची प्रति लिपि है।

Lakhi Ram Mahato  
4/1/08

गृहिता का छाया चित्र:-



Bijay Kumar samal  
4/1/08



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES



## INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

00AA 767949

Lekhi Kam Mahato  
4/1/08

बुके सरमहले  
4.1.08

माम चरमहले  
4.1.08

प्रमाणित किया जाता है कि दातागण एवं गृहिता जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है के बाये हाथ के अंगुलियों का निशान भरे सामने लिया गया है एवं दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।

बालू गोपाल राक्षित  
सां चनबाद  
सां नं १/१३

:-गवाहण:-

1 श्रीला रानी  
61 प्रौद्युत चनबाद  
4.1.08

2. Suresh. pd. Sahu  
Daron darpur  
Dhanta  
4.1.08

टंकक :-  
*[Signature]*

1821

1712



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Jharkhand

## e-Stamp

Certificate No. : IN-JH26845621939556S  
 Certificate Issued Date : 20-Feb-2020 05:17 PM  
 Account Reference : CSCACC (GV)/ jhcsceg07/ JH-DBSUM0157/ JH-DB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-JHJHCSCEG0739254586945983S  
 Purchased by : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC  
 Description of Document : Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement  
 Property Description : DEVLOPMENT AGREEMENT  
 Consideration Price (Rs.) : 0  
 (Zero)  
 First Party : PRADIP KUMAR SINGH AND OTHERS  
 Second Party : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC  
 Stamp Duty Paid By : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

निम्नलिखित विवरणों में से प्रतीक और छोटानामक  
 का उपयोग करके इस स्टैम्प को अद्यतन  
 का प्रमाणित करने के लिए कृपया  
 का प्रमाणित करने के लिए कृपया  
 रखावत स्वयं निमाशा १५५ में (अधिक) निकट  
 नशी में विम्वरत हे या रदाय - तर्फ उपस्थित  
 नहीं है।

निबन्धन ५६६६६६६६  
०५.०३.२०

Bradeep Kumar Singh  
Bisay Kumar Samal

21/02/20  
05.03.2020

SR 0006200763

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shoilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Warning 5/3/2020

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or at any Authorised collection center address displayed at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey. Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



0000000000

# Development Agreement St 100/

22/82  
4/3  
15  
2  
5/3

VIDE NOTIFICATION MEMO NO.- 499 & 500

DT. 19.05.2017 AFFIDAVIT NO. X DT. X

FE. VALUE OF RS. 228849 - VIDE

ENR No. 545981 dt 22.02.20

अंचल अधिकारी के प्राप्त सूची अनुसार दस्तावेज में उर्णित क्रमांक 13 नम्बर निषिद्ध खाते से बाहर है/सूची में निलंबित

अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य त कम् खाते में

Teer Bawal

LE 41 225825.10

225825.10



ENR No.-588/2017

Pradeep Kumar Singh  
Bijay Kumar Samal

21/02/20  
05/03/2020



**:- डेवलपमेंट एकरारनामा :-**

**एकरारनामा दाता(प्रथम पक्ष) :-** 1. श्री प्रदीप कुमार सिंह, पिता-श्री बाला प्रसाद सिंह, 2. श्री विजय कुमार सामल, पिता-स्व० नटवर सामल, जाति-राजपूत, पेशा-व्यवसाय, साकिन-नारायणपुर, कुसुम विहार, फुटबॉल ग्राउंड के निकट, थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद, भारतीय। (भू-स्वामी)  
आधार संख्या-1-3857 3413 3630, 2-9828 6467 7684, पैन-1-CJPPS5798P, 2-BIKPS2339K

**एकरारनामा ग्रहिता(द्वितीय पक्ष) :-** कालजीत बिल्डर एण्ड डेवलपर ओपीसी प्रा० लि० के निदेशक श्री अभिषेक रंजन मिश्रा, पिता-श्री रंजीत कुमार मिश्रा, जाति-ब्राह्मण, पेशा-व्यवसाय, साकिन-103 पार्वती विला, गंगा पथ वेस्ट, पटेल नगर, पटना, बिहार। भारतीय। (डेवलपर)  
आधार संख्या-7864 6215 7529, पैन-FBSPM2183N

सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य-90,33,000/- (नब्बे लाख तैतीस हजार रुपया मात्र)।

लेख्य प्रकार :- अपार्टमेंट निर्माण हेतु एकरारनामा

4/2/20

दिनांक 20/02/20 को

जिला कार्यालय, धनबाद में

दस्तावेजों के माध्यम से

प्रमाणित किया जाता है कि

निम्नलिखित व्यक्ति

का नाम प्रदीप कुमार सिंह

पता काला जलादा बिंदू

कृष्णगिरि धार साजपट्टिया धनबाद

राजपूत ब्राह्मण

का हस्ताक्षर

4/2/20



ENR No.-582/2007

Pradeep Kumar Singh

21/02/20

05.03.2020







Advocate  
ENR No.-588/2007

Bradeep Kumar Singh,  
Bijay Kumar Sanal.

21/02/20

#### डेवलपमेंट एकरारनामा

**विवरण जमीन :-**जिला निबंधन कार्यालय, धनबाद, अवर निबंधन कार्यालय सह थाना-सरायढेला, अर्न्तगत 'नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा' मौजा में खास दखली रैयती स्वत्व की जमीन, मौजा-नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा, मौजा नं0-13, नया खाता नं0-100(एक सौ), नया प्लॉट नं0-140 एवं नया प्लॉट नं0-139, दो प्लॉटों का कुल रकवा-15.45 डिसमिल जमीन पर आवासीय सह व्यवसायिक अपार्टमेंट के निर्माण हेतु एकरार किया। जिसका पुराना खाता नं0-24 एवं पुराना प्लॉट नं0-328 एवं 329 है।

#### **जिसकी चौहददी :-**

उत्तर : प्लॉट नं0-328, 329 एवं 322 का अंश,  
दक्षिण : 08 फीट चौड़ा गली,,  
पूरब : मनन यादव,  
पश्चिम : 21 फीट चौड़ा रास्ता.

उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक-15.03.2019 ई0 के केवाला दस्तावेज संख्या-1428 के द्वारा पंकज कुमार लोध, पिता-स्व0 हरि प्रसाद लोध से प्रथम पक्ष के निज नाम पर खरीदी हुई है। जो बही संख्या-01, जिल्द संख्या-113, पृष्ठ संख्या-547 से 596, वास्ते-2019 में लिपिबद्ध है। जिसका दाखिल-खारिज मुकदमा संख्या-3463/आर 27/2018-19 है तथा जमाबंदी रसीद संख्या-0601814749 में लगान वसूल होता है। अंचल कार्यालय, धनबाद के पंजी-11 के भाग वर्तमान-3 एवं पृष्ठ संख्या-62 में प्रथम पक्ष के निज नाम पर अंकित है। एवं उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक-04.01.2008 ई0 के केवाला दस्तावेज संख्या-60 के द्वारा लखी राम महतो, पिता-स्व0 कान्दन महतो एवं अन्य से प्रथम पक्ष संख्या-02 के निज नाम पर खरीदी हुई है। जो बही संख्या-01, जिल्द संख्या-01, पृष्ठ संख्या-37 से 43, वास्ते-2008 में लिपिबद्ध है। जिसका दाखिल-खारिज मुकदमा संख्या-2473(11)2007-08 है तथा जमाबंदी रसीद संख्या-0353084405 में लगान वसूल होता है। अंचल कार्यालय, धनबाद के पंजी-11 के भाग वर्तमान-1 एवं पृष्ठ संख्या-368 में प्रथम पक्ष संख्या-02 के निज नाम पर अंकित है।

यह कि उपरोक्त जमीन पर प्रथम पक्ष निर्विवाद रूप से शातिपूर्ण वातावरण में भोग-दखल करते आ रहे हैं। साथ ही विवरण अंकित जमीन का विकास कर अपार्टमेंट निर्माण के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृति प्रदान की गई।

Pradeep Kumar Singh

Bijay Kumar Sanaal

21/02/20

1. यह कि प्रथम पक्ष/भू-स्वामी उपरोक्त विवरण अंकित अपनी जमीन पर अपार्टमेंट के निर्माण हेतु डेवलपर/द्वितीय पक्ष को शान्तिपूर्ण वातावरण में निर्विवाद रूप से दखल देंगे। प्रथम पक्ष इस बात की भी घोषणा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन के एवज में द्वितीय पक्ष से अग्रिम स्वरूप वर्तमान में -1,00,000/- मात्र आज एक्सिस बैंक, पटेल नगर, पटना शाखा द्वारा निर्गत चेक संख्या-000341 के द्वारा प्रदान किया गया। शेष-3,00,000/-रूपये का अग्रिम भुगतान नक्शा पास एवं रेरा से स्वीकृति मिलने के बाद द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कर दिया जायेगा। दोनों में सहमति से तय किया गया कि माडा/नगर निगम, धनबाद द्वारा स्वीकृत नक्शा के आधार पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट में प्रथम पक्ष को 34 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष को 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी।

2. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा अग्रिम स्वरूप ली गई राशि -4,00,000/- मात्र प्रथम पक्ष अपार्टमेंट निर्माण के अन्दर द्वितीय पक्ष को वापस करेंगे अथवा अपार्टमेंट निर्माण के मूल्य पर उक्त राशि का समायोजन प्रथम पक्ष के हिस्से में कर दिया जायेगा।

3. यह कि, प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद लंबित नहीं है और ना ही इस जमीन की कभी बिक्री आदि की गई है। प्रथम पक्ष यह भी दावा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास कराने में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आयेगा। साथ ही विवरण अंकित जमीन पर किसी भी प्रकार का बैंक ऋण बकाया नहीं है।

4. यह कि, अपार्टमेंट निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हुए उच्च कोटि के बिल्डिंग मेटेरियल का ही प्रयोग किया जायेगा।

5. यह कि, अपार्टमेंट के निर्माण एवं प्रथम पक्ष को हिस्सा आवंटित कर देने के बाद प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के नाम पर अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा मानोनित किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर फ्लैट का निबंधन करा देंगे।

6. यह कि, अपार्टमेंट के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या अड़चन आने की स्थिति में प्रथम पक्ष अपना हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में भी प्रथम पक्ष हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे और सारी जिम्मेदारी भी प्रथम पक्ष की होगी।

7. यह कि, अपार्टमेंट निर्माण हेतु माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जमीन से संबंधित सारे आवश्यक कागजात प्रथम पक्ष द्वारा निर्विवाद रूप से द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन या शपथ पत्र तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

Pradeep Kumar Singh  
Bijay Kumar Samal

21/02/20

8. यह कि, निर्माण के दौरान प्रथम पक्ष या उनके वारिसान किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी या रूकावट डालने का कार्य नहीं करेंगे। विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए डेवलपर अपने ठेकेदार, करीगर, पार्टनर आदि बहाल कर उनसे काम लेने का पूरा अधिकार होगा। डेवलपर किसी भी सरकारी या निजी संस्था से निर्माण मेटेरियल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही कार्य से संबंधित किसी संवैधानिक संस्था का सहयोग लेने एवं कानूनी कार्रवाई का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

9. यह कि, द्वितीय पक्ष के हिस्से में आने वाले सुपर बिलटप एरिया पर पूर्ण अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष विज्ञापन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में बुक कर उस भाग को किसी भी व्यक्ति से बिक्री करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे और उसका मूल्य लेने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को ही होगा। फ्लैट खरीदने वाले कोई भी खरीदार बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज ले सकते हैं। इस पर प्रथम पक्ष को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

10. प्रथम पक्ष/भू-स्वामी अपने हिस्से का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। प्रस्तावित अपार्टमेंट के छत पर दोनों पक्षों का समान अधिकार होगा। लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष अपनी सहमति से नियमानुसार निर्माण कर सकते हैं।

11. साथ ही अपार्टमेंट का निर्माण माडा/नगर निगम, धनबाद से स्वीकृत नक्शा के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि किसी भी तरह से गलत निर्माण किया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी डेवलपर पर होगी। इस कारण यदि कोई वाद या कानूनी प्रक्रिया आरंभ होती है तो सारी जवाबदेही डेवलपर की होगी। इसमें प्रथम पक्ष/भू-स्वामी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार अथवा जवाबदेह नहीं होंगे।

12. यह कि, माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास होने से पूर्व विवरण अंकित जमीन से संबंधित सभी प्रकार के बकाया कर आदि का भुगतान प्रथम पक्ष को करना होगा, नक्शा स्वीकृत होने के बाद सभी प्रकार के कर आदि का भुगतान डेवलपर द्वारा किया जायेगा। अपार्टमेंट के निर्माण के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से के कर आदि का भुगतान करेंगे।

13. यह कि, प्रथम पक्ष/भू-स्वामी द्वितीय पक्ष को भूमि के टाइटल में त्रुटि होने से सुधार करेंगे तथा ये भी दावा करते हैं कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को ना तो बेचेंगे, ना ही किसी भी प्रकार का कर्ज लेंगे और ना ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य से कोई एकरार करेंगे।

14. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट निर्माण से संबंधित सभी नफा एवं नुकसान के स्वयं भागी होंगे। निर्माण से संबंधित सभी कार्यों तथा किसी दुर्घटना के लिए प्रथम पक्ष की जवाबदेही नहीं होगी।

15. यह कि, किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्था में किसी प्रकार का सिक्योरिटी अमाउंट संस्था द्वारा मांग की जाती है तो डेवलपर उसे जमा करेंगे और वापस लेंगे। प्रथम पक्ष का उसपर कोई अधिकार नहीं होगा।

Pradeep Kumar Singh,

Bijay Kumar Samal

21/02/20

16. यह कि, सामान्य सुविधाओं के लिए होने वाले खर्च का वहन प्रथम पक्ष को करना होगा। प्रथम पक्ष जनरेटर विद्युत व्यवस्था पर लगने वाले खर्चों का समानुपातिक भाग का वहन करेंगे।
17. यह कि, प्रथम पक्ष डेवलपर के आग्रह पर सभी प्रकार के आवेदन, केवाला दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करेंगे।
18. यह कि, एकरारनामा होने के 30 दिनों के अन्दर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटार्नी बना देंगे ताकि डेवलपर बिल्डिंग प्लॉन बनाकर पास कराने तथा भविष्य में खरीदारों के लिए एकरारनामा तैयार करने में मदद मिल सके।
19. यह कि, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद डेवलपर प्रथम पक्ष को लिखित सूचना देंगे एवं उसमें लगने वाले सभी कॉमन फिटिंग एवं सारी सुविधा मुहैया कराकर प्रथम पक्ष के हिस्से को हस्तांतरित करेंगे।
20. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट का निर्माण डेवलपर द्वारा स्टैण्डर्ड स्पेसीफिकेशन के अनुरूप करेंगे। स्पेसीफिकेशन से अलग हटकर कोई काम प्रथम पक्ष करना चाहें वैसी स्थिति में अतिरिक्त लागत का भुगतान प्रथम पक्ष करेंगे।
21. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट में खरीदने वाले सभी फ्लैट ऑनर्स की एक कमिटी गठन डेवलपर करयेंगे। इस कमिटी में प्रथम पक्ष भी सदस्य होंगे तथा यह कमिटी बिल्डिंग के रख-रखाव तथा देख-रेख का कार्य करेगी। इसमें आने वाले कॉमन कार्य का भुगतान बराबर-बराबर सभी को करना होगा। प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से के हिसाब से कॉमन कार्य का पैसा कमिटी को देंगे।
22. यह कि, डेवलपर अपार्टमेंट के अलावा चहारदीवारी, पानी के बोरिंग एवं लिफ्ट आदि की व्यवस्था करेंगे।
23. यह कि इस एकरारनामा के बाद विवरण अंकित जमीन में किसी प्रकार की त्रुटि निकलती है तथा कुछ भी विवाद होता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को होने वाले नुकसान की भारपाई करेंगे।
24. यह कि, इस एकरारनामा पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से जरूरत पड़ने पर जो भी रकम लेंगे, वह प्रथम पक्ष के एरिया पर समायोजित होगा।
25. यह कि, इस एकरारनामा से संबंधित सभी विवाद को सुलझाने के लिए धनबाद न्यायालय हीं सक्षम होगा। इस एकरारनामा की दो प्रति तैयार की गई है, जो एक-दूसरे की नकल है, एक प्रति द्वितीय पक्ष के पास होगी तथा डुप्लीकेट कॉपी प्रथम पक्ष के पास होगी।

Pradeep Kumar Singh  
Bijay Kumar Saha  
21/02/20

26. यह कि, नक्शा पास एवं रेरा से स्वीकृति होने के बाद निर्माण के लिए लगभग 03 वर्ष का समय एवं 06 माह का अतिरिक्त समय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

27. नक्शा पास होने बाद ही प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच हिस्से का बंटवारा किया जायेगा एवं निबंधित एकरारनामा होने के बाद द्वितीय पक्ष विवरण अंकित जमीन पर बोर्ड लगाकर अपना दखल-कब्जा लेकर अपार्टमेंट निर्माण का काम कर सकते हैं। दखल-कब्जा में किसी भी प्रकार का विवाद अथवा अड़चन आने पर सारी जवाबदेही प्रथम पक्ष की होगी।

अतः प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अपनी स्थिरबुद्धि, सरलमन, शान्तचित्त एवं स्वस्थ शरीर में रहकर गवाहों के सामने समझ, बूझकर, यह डेवलपमेंट एकरारनामा लिख दिया ताकि समय पर काम आवे।

इति तारिख :- 21/02/2020 ई०

द्वितीय पक्ष का छायाचित्र :-



Kaaljeet Builders and Developers OPC Pvt. Ltd.

Abhishek Rayan Nishra  
21/02/20  
Director

मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनो पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया। प्रमाणित किया जाता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के जो छायाचित्र इस दस्तावेज में लगे हैं, के बाँये हाथ के अँगूलियों के निशान मेरे सामने लिये गये हैं।

गवाहगण :-

1. Billesh Mandal  
S/o Ramesh Mandal  
Kusum Vihar Piprabera  
Dhanbad

2. Sunil Dey  
S/o Lt. Dip Dey  
Kusum Vihar  
Dhanbad

Shailesh Kr.  
ENR - 588/2007  
Actv. Dhanbad

दिलीप शीवालय  
05.03.2020

21/02/20



Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

NOTARY  
DHANBAD

I, Kalpna Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, by faith hindu, R/o Ram Chowk, P.S. Madhubani, District - Madhubani, Bihar, do here by solemnly affirm as follows:

1. That, I am the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, Abhishek Ranjan Mishra, S/O Sri Ranjeet Kumar Mishra is my only son, I will give the above said land to my said son.
3. That, the market value of my land and building is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
4. That, I declare that in future if necessary then I will register the said land in the name of my said son. In this regard I have got not any objection.

02-06 MAY 2020  
No. Dhan - 8CMB

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by Sri *f. choudhary* Advocate Dhanbad.

The statement made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this

NOTARY  
DHANBAD

Verification here at Dhanbad, date 06 MAY 2020

Kalpna Kumari  
Deponent

Identified by

The Notary Public, Dhanbad.



Authorised.  
Section 297 (1) (e) of the Cr. P.C. 1973  
(Act No. 71 of 1974) & sub (B) (i) (a)  
of the Notaries Act 1952  
(Act No. 53 of 1952)

Advocate

*[Signature]*  
02/05/2020

Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

**NOTARY  
DHANBAD**

I, Abhishek Ranjan Mishra, S/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, Aged about 19 years, by faith hindu, Director of KAALJEET BUILDERS AND DEVELOPERS (OPC) PRIVATE LIMITED, having CIN - U45500BR2019OPC044398 Dated 05-12-2019 incorporated under The Companies Act 2013, having its address- C/O Abhishek Ranjan Mishra, F.No - 103, Parvati Villa, Ganga Path, West patel nagar, Distt - Patna, Bihar - 800023, do here by solemnly affirm as follows:

1. That, my mother Smt. Kalpna Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra is the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, she has given no objection in favour of me to use said landed property with building of market value is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
3. That, she also declares that in future if necessary then she will register the said property in my name.
4. That, the above statements are genuine and correct to the best of my knowledge. I also submit no objection affidavit of her.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by

Sri *Abhishek Ranjan Mishra*  
Advocate Dhanbad.

The statement made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this verification here at Dhanbad, dated *06 MAY 2020*

*Abhishek Ranjan Mishra*

Deponent

Identified by

*02/05/2020*  
Advocate



**NOTARY  
DHANBAD**

Authorized  
as per (c) of the Cr. P.C. 1973  
(Act No. 11 of 1974) & sub (b) (i) (c)  
of the Notaries Act 1952  
'Act No 53 of 1952'

06 MAY 2020

Date B.C.No.

08

**Form GST REG-02**

*[See Rule -8(5)]*

**Acknowledgment**

**Application Reference Number (ARN) : AA1005200015660**

**You have filed the application successfully and the particulars of the application are given as under:**

**Date of Filing** : 06/05/2020

**Time of filing** : 13:17:29.0

**GSTIN, if available** : NA

**Legal Name** : Kaaljeet Builders and developers (OPC) Private limited

**Trade Name (if applicable):** KAALJEET BUILDERS AND DEVEL

**Form No.** : GST REG-01

**Form Description** : Application for New Registration

**Center Jurisdiction** : PATNA CITY RANGE

**State Jurisdiction** : Patna North

**Filed by** : self

**Temporary reference number, if any:** 102000053679TRN

**Payment details\*** : NA

It is a system generated acknowledgment and does not require any signature.

*\*Applicable only in case of Casual taxable person and Non Resident taxable person .*



F4277/11 10090



M. V. R. ...  
...



बिहार सरकार  
बिला निबंधन कार्यालय, मधुबनी

दिनांक 06/06/2011 को श्री/श्रीमती Ram Nagina Devi

निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 45000/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 15761/- निबंधन तथा अन्य शुल्क को भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेखकारियों ने मेरे सम्मक्ष इनका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे भेजिए हैं। इसे दस्तावेज सं० 4090 के रूप में मुद्रांक सं० 1 की जिरद सं० 49 के पृष्ठ सं० 359 से 365 तक CD 8 में आज निबंधित एवं कुल 7 पृष्ठों में संघारित किया गया।

हो V.K  
(Vinay Kumar Prasad)  
निबंधन महासिकारी

Date : 06/06/2011

101- नाम श्रीमती - श्रीमती राम नगिना देवी जॉर्ज - श्री. निरेडु  
जॉर्ज पेक्का - झकतअरी लाडीन गॉर्जा - एडतारा  
प. जरेल बाता - अरेड जिला - जयपुरनी  
शास्तील है

102- नाम श्रीमती शर्मा - श्रीमती कुलपता कुमारी जॉर्ज  
श्री. राजेश मिश्र पेक्का - झकतअरी लाडीन  
गॉर्ज - पाही पौ. खनलवपाही प. अरेड  
बाता - पडौल जिला - जयपुरनी शास्तील है

SCANNED



द्वारा यह दस्तावेज  
रामनगीना देवी केबाला निरवाला पद  
जर्जमिन पेसा  
समझ (स्थिता - 4-6-11)

Serial No :  
Token No : 4277  
Type & Status  
of Party

Deed No :  
of 2011  
Name of Party

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

In Favour of

Kalpna Kumari  
Kalpama Kumari



Presented by  
Self

Signature of Party  
Ram Nagina Devi  
राम नगीना देवी



Executed by

Signature of Party  
Ram Nagina Devi

Identifier

Signature of Party  
Arvind Pd. Singh  
अरविन्द प्रसिंह



Signature of Party



अहमदनगर जिल्हा मंडळ कार्यालय येथे पहातिलेले मालकी हक्क दाखले क्र. 20-7-010-107  
हस्तांतरण कर देण्याबाबतची कागदपत्रे: अहमदनगर जिल्हा मंडळ कार्यालय

राम नगीना देवी

4-6-11 / 616111

6/6

श्री अरविन्द प्रसिंह यांचे अहमदनगर मंडळ  
कार्यालय - हस्तांतरण कार्यालय - अहमदनगर  
जिल्हा मंडळ कार्यालय - अहमदनगर  
दि. 4-06-2011  
6-6-11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

465

एक हजार रुपये  
रु.1000



ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

BIHAR  
7 MAY 2011

9200  
3/5/2021 440968  
राम नरगना देवा


मौजि प्रलेट के पास भूमिहीन नर एड को  
पुष्प बांकी नहीं है। मौजि प्रलेट के चाकरी  
के उपयुक्त जमीन पर अपना पूर्ण प्राधिकार  
रखता हुआ कहे उसको कुछ उपज तथा लाभ  
उत्पन्न हुए पुरत के भोग उपभोग किया करते  
हैं। अपनी नाम बिहार सरकार के जमीनदारी  
कार्यालय में दर्ज कराया उसकी रकम को भदिसी  
द्वारा खास मंत्र द्वारा लिया करते हैं। उपयुक्त जमीन  
पर किले प्रकार का खेड़ बाह विवाद था अंकुर  
नहीं है तथापि यदि बाह में किले प्रकार का खेड़  
बाह निबाह या अंकुर पड़े तो भूमिहीन 1/10  
खेड़ का भाववादी धर है 1/10 जो भूमिहीन कुल  
अरसेमन प्रभावे लक्ष्मी का हुआ बाहिर बाहर  
का देते हैं। अतः बाह 1/10 विक्रय - पत्र (कुवाला)  
लिख दिया कि प्रभाप नर और लक्ष्मी का नाम  
माके

राम नरगना देवा  
4-6-11

प्रभापत्र किया जाता है कि उस हस्तानेज में  
लाभित भूमि गैर भूमिहीन नाम लाल, भू-दान, गे-हस्तारी  
वस्तु अथवा हिन्दू, जमाप पत्रा एवं लक्ष्मी जमीन  
नहीं है।

लिपिकार - प्रदीप कुमार सिंह  
ज्या. कुमरवा मं. नरार  
प्रजपुन पंकर लुका लक्ष्मी  
दिना 10-7-1998

दिनांक - 04-06-2011 30



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000



ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

463

18/11/2017 G 440973

राम नारायण मिश्र  
पता - 10/10 - 20/11



- रजि. - खेबर  
839- 1575 एक हजार पांच लाख पचास (300)
- 6461 - चौखट लॉ एड सट
  - 6462 - चौखट लॉ नासट
  - 6463 - चौखट लॉ तिरसट
  - 6464 - चौखट लॉ चौखट
  - 6465 - चौखट लॉ पसट
- मना

मि. खडवा - 152 के अनिवार्य पत्रिका ल 6909.

एक उद्यान एक मूला मात्र प्रियन्त हाल चौटही  
उठ सुडहन मिश्र 40 नीम रास्ता पूर लुनीता  
मिश्रा पं. शाखा लडड

अत्र नडवा में अडान लगाना 31 वर्ष पुदाना रौडमदा  
प्रियन्त लुनीता 4 चौडार्ड - 28 x 20' क्षेत्र - 3,80,000/-  
एवं जमीन का क्षेत्र 3,40,000/-

उपरोक्त मन्त्रालय के अरुण रुपया के 5,50,000  
करने के उमा वा खरीद करत हीगा जमीन को  
अ. चन्द प्रकरिया के आपन अरुण के मन्त्रालय  
अपन मन तका करी की खरीद करत म. मन्त्रालय  
खाना खर - 5. प्रियन्त मूल्य खाना खर - 4 मन्त्रालय  
अलिह खाना खर - 2 के हाथ नया वा नहरा  
इलाका किना वा कुल अरुण एक पुठिपाना

राम नारायण मिश्र  
पता - 10/10

राम नारायण मिश्र  
पता - 10/10 - 20/11

V. K. Singh

Ring



28/5/2018 440966  
राम नगरी

बिहार BIHAR  
27 MAY 2018  
मकनी

10.4. ताबहादुर जमीन नं०. 450,000/- लक्ष लाल पचास हजार रुपैया मात्र.

10.5. ताबहादुर नवा मनाजी - 4.548 मा हजामत पॉप  
लॉ प्रवर्तन क्लियरल मांके. 6909 एड उडा एड थू  
लवाजी डा. मां कानन अथमा लाड नडू मांजे. मां मांजा  
नाहर टाउन लालड नल्लोला काला मांजे. मां गोपालपुर  
नागा लो गुरीला लो एव वाजिस्ट्री. मयलनी बागा  
1062 गौजी 10-6424 मवा जमीनहादी तनुड पंचक  
रहिका जमानदी नं० 8404.

राम नगरी

6-6-11

जमीन का प्रता निवरल

जमीन बजरील डेवाला निजानी बजिलेही प्रता ०  
21.3.2003 डेव नं० 6260 एड-12 मॉल्युम 10.104.  
पुंम नं०- 375 ले 386 नविलेन सीमनी कुठोना देवी  
जोर्जे. सी डेवा नाम मां मांजे. मां मांजा पुं  
गोपालपुर लो ननाम एवुड मांजे. मां मांजा पुं  
वेरीड लो हाखिल हा जिय मांजे. मां मांजा पुं  
उज्जा चला मांजे. मां मांजे. मां मांजा पुं



रवि ठगरविठु मरुसिंह पीठ  
श्री विरिठु मोवाक साहित्य  
एकमात्र आना-उरुए  
पीला - मरुसिंह मां - 11-6-2011

# जिला निबंधन कार्यालय, मधुबनी

## नजरी नक्सा

467

टोकल नं०

दस्तावेज सं०

क्रेता :- श्रीमती कल्पना कुमारी झाँसे. श्री नंजीर मिश्र  
 जिला. मधुबनी  
 विक्रेता :- श्रीमती सभनगीना देवी झाँसे. श्री निरंजु प्रसाद झाँसे  
 जिला. मधुबनी

खाता नं०

859


खेसरा नं० 1575 30

6461  
 6462  
 6463  
 6464  
 6465

वौहवी :-

30- लुडहन मिश्र  
 40- गीत नाला  
 50- लुनीता मिश्र  
 60- नाला लुड

### नजरी नक्सा




*Handwritten signature in red ink*  
 6/6/11

नक्सा निर्माता का नाम एवं हस्ताक्षर  
 श्रीमती कल्पना कुमारी

क्रेता का हस्ताक्षर

Kalpama Kumari

4/6/11



विक्रेता का हस्ताक्षर

सभनगीना देवी

4/6/11

**Endorsement of Certificate of Admissibility**

Admissible under Rule 5 : duty stamped ( or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 23. Also admissible under section 24(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	45000	Amt. paid by N J Stamp Paper -	Rs. 4000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0	Amt. paid through Bank Challan -	Rs. 56761
	Registration Fee		LLR + Process Fee	Service Charge
FEE PAID A1	15000 C	0 H1b	0 LLR	500
A8	0 D	0 H2	0 Proc. Fee	50
A9	0 DD	0 I	<b>Total-</b>	<b>550</b>
A10	0 E	0 J1		
B	0 H1a	0 J2		
		0 Ka1	0 Li	
		0 K1b	0 Li	
		0 K1c	0 Mu	
		0 K2	0 Na	
		0 Li	0	
		<b>TOTAL-</b>	15036	
			15761	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. .

Date : 06/06/2011

*V. K. [Signature]*  
**Registering Officer**  
 Madhubani

**Endorsement under section 52**

Presented for registration at Registration Office, Madhubani on Monday, 06th June 2011 by Ram Nagina Devi s/o Virendra Mauar by profession Agriculture. Status - Executant

राम नगिनी देवी

धौ- 6-6-11 अखिलेश कुमार  
 6-6-2011

Signature / L.T.I. of Presentant

Date : 06/06/2011

*V. K. [Signature]*  
**Registering Officer**  
 Madhubani

**Endorsement under section 58**

Execution is admitted by those executants and identified by the person ( identified by Arvind Pd. Singh age --- Sex M son/daughter of Virendra Mauar resident of Vill-Ektara,Ps-Arer, Madhubani. ) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

*V. K. [Signature]*  
**Registering Officer**  
 Madhubani

Date . 06/06/2011

**Endorsement of Certificate of Registration under section 60**

Registered at Registration Office Madhubani in Book No. 1 Volume No. 49 on page no. 359 - 365 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-8 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

*V. K. [Signature]*  
**Registering Officer**  
 Madhubani

Date : 06/06/2011

भूमि की दायित्व-खारिज के लिए KALPNA KUMARI  
 पुत्र पत्नी श्री RANJIT MISHRA निवासी ग्राम  
 श्रीआडा थाना Madhubani जिला Madhubani  
 Rahuka अनुसण्डल Madhubani जिला Madhubani  
 से एक पतिवैदान प्राप्त हुआ है। पतिवैदान का ब्यौरे  
 निम्नवत है:-

याचिका संख्या	याचिका प्राप्त होने की तिथि	याचिका संख्या	याचिका कर्तरी (ओं) का नाम
19/04/2018	17/11/18	22 R07	KALPNA KUMARI

भूमि का विवरण जिसके दायित्व-खारिज के लिए याचिका दी गयी है

अनुसण्डल का नाम	संख्या	खता संख्या	तरा भूमि का संख्या	चौहद्दी
राजसूय	62 839	1175 B	एकड़ 4 578	पूरब SUNITA MISHRA परिम. SHAKTA ROAD